



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 31 दिसम्बर, 2020  
पौष 10, 1942 शक सम्वत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश

संख्या 4 / 1059-2020-4-131(भदोही)-2014  
लखनऊ, 31 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-563

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैतीस-1-94-149-94, दिनांक 09 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी-2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राज कुमार, निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ, पंचायती राज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा0नि0आ0-2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014, शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा0नि0आ0-2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 एवं शासनादेश संख्या 62/2961-33-3-2020-03रा0नि0आ0-2014, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद भदोही की विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/220-2015-4-131(भदोही)-2014, दिनांक 28 जनवरी, 2015 में विकास खण्ड भदोही की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्वारा स्थापित करता हूँ।

## सारणी

जनपद-भदोही

क्र० सं०	पूर्व की स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
1	भदोही	पिपरी	पिपरी				
			मर्यादपट्टी				नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-1465/नौ-6-2020-07 सी०वि०/2019 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर पालिका परिषद भदोही में समाहित
							ग्राम मर्यादपट्टी को ग्राम पंचायत अस्ती में जोड़ा गया है।
2	भदोही	गंगापुर	गंगापुर				
			हिम्मतपुर				नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-1465/नौ-6-2020-07 सी०वि०/2019 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर पालिका परिषद भदोही में समाहित
			बकुचियां				
			सरैया				
3	भदोही	फत्तपुर दरगाह	फत्तपुर दरगाह				
			सालिमपुर				नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-1465/नौ-6-2020-07 सी०वि०/2019 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर पालिका परिषद भदोही में समाहित
			पकरी ज० गंगापुर				
			जल्लापुर				
			मामदेवपुर				
							ग्राम मामदेवपुर को ग्राम पंचायत रयों में जोड़ा गया है।
4	भदोही	नूरपुर	नूरपुर				
			जाहिदपुर				नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-1465/नौ-6-2020-07 सी०वि०/2019 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर पालिका परिषद भदोही में समाहित
			शाहाबाद				
			मथुरापुर				
							ग्राम शाहाबाद को ग्राम पंचायत मकदूमपुर में जोड़ा गया है।
							ग्राम मथुरापुर को ग्राम पंचायत मकदूमपुर में जोड़ा गया है।
5	भदोही	सेवापुर	सेवापुर				
			चंवर				नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-1465/नौ-6-2020-07 सी०वि०/2019 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर पालिका परिषद भदोही में समाहित
			नेवादाखुर्द				
							ग्राम नेवादाखुर्द को ग्राम पंचायत मकदूमपुर में जोड़ा गया है।
6	भदोही	महबूबपुर	महबूबपुर				
			मकदूमपुर				नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-1465/नौ-6-2020-07 सी०वि०/2019 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर पालिका परिषद भदोही में समाहित
							ग्राम मकदूमपुर के नाम से नई ग्राम पंचायत बनाई गयी।

1	2	3	4	1	2	3	4
7	भदोही	अहमदपुर फुलवरियां	अहमदपुर फुलवरियां	नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या- 1465/नौ-6-2020-07 सी0वि0/2019 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर पालिका परिषद भदोही में समाहित			
			जमुनीपुर वाद फर्रोस				
			रुद्रपुर				
			जलालपुर				
			पूरेश्याम	ग्राम रुद्रपुर को ग्राम पंचायत मकदूमपुर में जोड़ा गया है।			
				ग्राम जलालपुर को ग्राम पंचायत मकदूमपुर में जोड़ा गया है।			
				ग्राम पूरेश्याम को ग्राम पंचायत मकदूमपुर में जोड़ा गया है।			
8	भदोही	रैमलपुर	रैमलपुर	नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या- 1465/नौ-6-2020-07 सी0वि0/2019 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर पालिका परिषद भदोही में समाहित			
9	भदोही	लखनपुर उर्फ अभयनपुर	लखनपुर उर्फ अभयनपुर	नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या- 1465/नौ-6-2020-07 सी0वि0/2019 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर पालिका परिषद भदोही में समाहित			
10	भदोही	रेवड़ापरसपुर	रेवड़ापरसपुर	नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या- 1465/नौ-6-2020-07 सी0वि0/2019 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर पालिका परिषद भदोही में समाहित			
			भिखारीपुर	नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या- 1465/नौ-6-2020-07 सी0वि0/2019 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर पालिका परिषद भदोही में समाहित			
11	भदोही	डुडवाकुकुरौठी	डुडवाकुकुरौठी	नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या- 1465/नौ-6-2020-07 सी0वि0/2019 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर पालिका परिषद भदोही में समाहित			
12	भदोही	रामरायपुर	रामरायपुर	नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या- 1465/नौ-6-2020-07 सी0वि0/2019 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर पालिका परिषद भदोही में समाहित			
13	भदोही	हरियाव	हरियाव	नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या- 1465/नौ-6-2020-07 सी0वि0/2019 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर पालिका परिषद भदोही में समाहित			
			कुशियरा	नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या- 1465/नौ-6-2020-07 सी0वि0/2019 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर पालिका परिषद भदोही में समाहित			
14	भदोही	कंसरायपुर	कंसरायपुर	नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या- 1465/नौ-6-2020-07 सी0वि0/2019 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर पालिका परिषद भदोही में समाहित			

1	2	3	4	1	2	3	4
15	भदोही	चौबेपुर	चौबेपुर	ग्राम चौबेपुर को ग्राम पंचायत दूलमदासपुर में जोड़ा गया है।			
			बनकट ज0 सररौई	नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या- 1465/नौ-6-2020-07 सी0वि0/2019 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर पालिका परिषद भदोही में समाहित			
			प्रजापतिपुर				
16	भदोही	हरीरामपुर	हरीरामपुर				
			रजपुरा				
17	भदोही	अस्ती	अस्ती	1	भदोही	अस्ती	अस्ती
			परसपुर बिझवनियां				परसपुर बिझवनियां
18	भदोही	रयॉ	रयॉ				मर्यादपट्टी
19	भदोही	दुलमदासपुर	दुलमदासपुर	2	भदोही	रयॉ	रयॉ
			मानिकपुर				मामदेवपुर
20	भदोही	सोनहर	सोनहर	3	भदोही	मकदूमपुर	मकदूमपुर
			मई				नेवादाखुर्द
			छितौना				रुद्रपुर
			तिलंगरा				जलालपुर
21	भदोही	उमरी	उमरी				शाहाबाद
22	भदोही	तुलसीचक	तुलसीचक				मथुरापुर
			लाल मुरलीचक				पूरेश्याम
			पूरैकिसुन सिंह	4	भदोही	दुलमदासपुर	दुलमदासपुर
			तिलंगरा				मानिकपुर
23	भदोही	रडई	रडई				चौबेपुर
			बनकट ज0 पिपरी	5	भदोही	सोनहर	सोनहर
			दुर्जनपुर				मई
24	भदोही	बसावनपुर	बसावनपुर				छितौना
			अमिलोरी				तिलंगरा
			नयनपुर	6	भदोही	उमरी	उमरी
25	भदोही	याकूबपुर	याकूबपुर	7	भदोही	तुलसीचक	तुलसीचक
26	भदोही	मानिक पट्टी	मानिक पट्टी				लाल मुरलीचक
			ईयाई				पूरैकिसुन सिंह
			किशुनपुर टेकारी				तिलंगरा
27	भदोही	नेवादाकला	नेवादाकला	8	भदोही	रडई	रडई
28	भदोही	डुढवाधरमपुर	डुढवाधरमपुर				बनकट ज0 पिपरी
29	भदोही	नगुआं	नगुआं				दुर्जनपुर
			गुरुखुलिया	9	भदोही	बसावनपुर	बसावनपुर
			चकहेमराज				अमिलोरी

1	2	3	4	1	2	3	4
30	भदोही	कुरैया	कुरैया				नयनपुर
			घूरीपुर	10	भदोही	याकूबपुर	याकूबपुर
31	भदोही	चकबसुही	चकबसुही	11	भदोही	मानिक पट्टी	मानिक पट्टी
			चकमामदेव				ईयाई
32	भदोही	बीरापट्टी	बीरापट्टी				किशुनपुर टेकारी
33	भदोही	सनकडीह	सनकडीह	12	भदोही	नेवादाकला	नेवादाकला
34	भदोही	महरभा	महरभा	13	भदोही	डुढ़वाधरमपुर	डुढ़वाधरमपुर
			चन्दापुर	14	भदोही	नगुआं	नगुआं
			चकधरनी				गुरुखुलिया
35	भदोही	अजयपुर	अजयपुर				चकहेमराज
36	भदोही	पिपरीस	पिपरीस	15	भदोही	कुरैया	कुरैया
37	भदोही	मूसीलॉटपुर	मूसीलॉटपुर				घूरीपुर
38	भदोही	डोमनपुर	डोमनपुर	16	भदोही	चकबसुही	चकबसुही
			सिखड़ी				चकमामदेव
39	भदोही	शेरवां	शेरवां	17	भदोही	बीरापट्टी	बीरापट्टी
			सवलेपुर	18	भदोही	सनकडीह	सनकडीह
			सिरौली	19	भदोही	महरभा	महरभा
			चकशेरवां				चन्दापुर
40	भदोही	परगासपुर	परगासपुर				चकधरनी
41	भदोही	मर्दनपुर	मर्दनपुर	20	भदोही	अजयपुर	अजयपुर
			गोड़ाजमुनाजति	21	भदोही	पिपरीस	पिपरीस
42	भदोही	रघुनाथपुर	रघुनाथपुर	22	भदोही	मूसीलॉटपुर	मूसीलॉटपुर
			पथरहां	23	भदोही	डोमनपुर	डोमनपुर
			अमरौना				सिखड़ी
			फत्तूपुर अमरौना	24	भदोही	शेरवां	शेरवां
			गुलौरा				सवलेपुर
43	भदोही	वेदमनपुर	वेदमनपुर				सिरौली
44	भदोही	अनेगपुर	अनेगपुर				चकशेरवां
			चौधरीपुर	25	भदोही	परगासपुर	परगासपुर
45	भदोही	मानिकपुर	मानिकपुर	26	भदोही	मर्दनपुर	मर्दनपुर
46	भदोही	समालकोट	समालकोट				गोड़ाजमुनाजति
			परसोत्तमपट्टी	27	भदोही	रघुनाथपुर	रघुनाथपुर
47	भदोही	कोल्हण	कोल्हण				पथरहां
48	भदोही	चकभुईधर	चकभुईधर				अमरौना
49	भदोही	माधोरामपुर	माधोरामपुर				फत्तूपुर अमरौना
			परसीपुर				गुलौरा
			ककरही चौबान	28	भदोही	वेदमनपुर	वेदमनपुर

1	2	3	4	1	2	3	4
50	भदोही	जमुआ	जमुआ	29	भदोही	अनेगपुर	अनेगपुर
			प्रेमराजपुर				चौधरीपुर
			उधवपुर	30	भदोही	मानिकपुर	मानिकपुर
51	भदोही	डीहकोईरान	डीहकोईरान	31	भदोही	समालकोट	समालकोट
			बनकट ज0 माधोरामपुर				परसोत्तमपट्टी
			भकोड़ा	32	भदोही	कोल्हण	कोल्हण
52	भदोही	कोम	कोम	33	भदोही	चकभुईधर	चकभुईधर
			भदरमनपुर	34	भदोही	माधोरामपुर	माधोरामपुर
53	भदोही	सर्रोई	सर्रोई				परसीपुर
54	भदोही	रामपुर	रामपुर				ककरही चौबान
			जयरामपुर शेर	35	भदोही	जमुआ	जमुआ
			जयरामपुर खास				प्रेमराजपुर
55	भदोही	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर				उधवपुर
56	भदोही	हृदयपट्टी	हृदयपट्टी	36	भदोही	डीहकोईरान	डीहकोईरान
			अहरा				बनकट ज0 माधोरामपुर
			विशुनपुर				भकोड़ा
			गोपालपट्टी	37	भदोही	कोम	कोम
57	भदोही	घसकरी	घसकरी				भदरमनपुर
			रामपुर घसकरी	38	भदोही	सर्रोई	सर्रोई
			भगवानपुर ज0 सर्रोई	39	भदोही	रामपुर	रामपुर
58	भदोही	राघवपुर	राघवपुर				जयरामपुर शेर
59	भदोही	खेम्हईपुर	खेम्हईपुर				जयरामपुर खास
60	भदोही	उधवामाफी	उधवामाफी	40	भदोही	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
			चकभुटही	41	भदोही	हृदयपट्टी	हृदयपट्टी
			बनपुरवा				अहरा
61	भदोही	झिंंगूरपुर	झिंंगूरपुर				विशुनपुर
			चकधरनी				गोपालपट्टी
62	भदोही	चकहरिवंश भटान	चकहरिवंश भटान	42	भदोही	घसकरी	घसकरी
63	भदोही	मल्लपुर	मल्लपुर				रामपुर घसकरी
			चकहरिवंश पं0 कला				भगवानपुर ज0 सर्रोई
64	भदोही	मर्चवार	मर्चवार	43	भदोही	राघवपुर	राघवपुर
			सनवईयां	44	भदोही	खेम्हईपुर	खेम्हईपुर
			चकहरिवंश प0 खुर्द	45	भदोही	उधवामाफी	उधवामाफी

1	2	3	4	1	2	3	4
65	भदोही	पूरेमुड़िया	पूरेमुड़िया				चकभुटही
			चकहोलमन				बनपुरवा
66	भदोही	जंगला	जंगला	46	भदोही	झिंंगूरपुर	झिंंगूरपुर
			रजईपुर				चकधरनी
			कटेहरा	47	भदोही	चकहरिवंश भटान	चकहरिवंश भटान
67	भदोही	बीसापुर	बीसापुर	48	भदोही	मल्लूपुर	मल्लूपुर
68	भदोही	लीलाधरपुर	लीलाधरपुर				चकहरिवंश पं0 कला
			बनकट	49	भदोही	मर्चवार	मर्चवार
69	भदोही	बाड़ी	बाड़ी				सनवईयां
70	भदोही	इस्मैला	इस्मैला				चकहरिवंश प0 खुर्द
			पचवल	50	भदोही	पूरेमुड़िया	पूरेमुड़िया
			मिसिरपुर				चकहोलमन
71	भदोही	उचेठा	उचेठा	51	भदोही	जंगला	जंगला
			सवलेपुर				रजईपुर
72	भदोही	बढ़ौना	बढ़ौना				कटेहरा
			चकभवनीगिरि	52	भदोही	बीसापुर	बीसापुर
73	भदोही	खेतलपुर	खेतलपुर	53	भदोही	लीलाधरपुर	लीलाधरपुर
			अर्जुनपुर				बनकट
74	भदोही	बिजला	बिजला	54	भदोही	बाड़ी	बाड़ी
75	भदोही	भाला	भाला	55	भदोही	इस्मैला	इस्मैला
76	भदोही	दत्तीपुर	दत्तीपुर				पचवल
			तालकुढ़वा				मिसिरपुर
			कनेहरी	56	भदोही	उचेठा	उचेठा
			गोड़कनेहरी				सवलेपुर
77	भदोही	दरीबपुर	दरीबपुर	57	भदोही	बढ़ौना	बढ़ौना
			दुबहां				चकभवनीगिरि
			हड़हा	58	भदोही	खेतलपुर	खेतलपुर
			भुवाजाग				अर्जुनपुर
78	भदोही	भगवतीदासपुर	भगवतीदासपुर	59	भदोही	बिजला	बिजला
			चकफकीरमाफी	60	भदोही	भाला	भाला
79	भदोही	तारापुर	तारापुर	61	भदोही	दत्तीपुर	दत्तीपुर
80	भदोही	सोनबरसा	सोनबरसा				तालकुढ़वा
			बसुआपट्टी				कनेहरी
81	भदोही	अवसानपुर	अवसानपुर				गोड़कनेहरी
			बिगही	62	भदोही	दरीबपुर	दरीबपुर
			गिरिया				दुबहां

1	2	3	4	1	2	3	4
82	भदोही	भगवानपुर कनेहरी	भगवानपुर कनेहरी				हड़हा
			जोगीपुर				भुवाजाग
83	भदोही	पल्हैया	पल्हैया	63	भदोही	भगवतीदासपुर	भगवतीदासपुर
			बसन्तपुर				चकफकीरमाफी
			चकसनाथ	64	भदोही	तारापुर	तारापुर
			चकविश्राम	65	भदोही	सोनबरसा	सोनबरसा
84	भदोही	डोमनपुर	डोमनपुर				बसुआपट्टी
			चकनान्हू	66	भदोही	अवसानपुर	अवसानपुर
85	भदोही	निदूर	निदूर				बिगही
			कंतापुर				गिरिया
86	भदोही	चौरीखास	चौरीखास	67	भदोही	भगवानपुर कनेहरी	भगवानपुर कनेहरी
			चौरी दानूपट्टी				जोगीपुर
			चौरी निदूरपट्टी	68	भदोही	पल्हैया	पल्हैया
87	भदोही	बरैला	बरैला				बसन्तपुर
88	भदोही	चनईपुर	चनईपुर				चकसनाथ
			नरहरपुर				चकविश्राम
89	भदोही	रवेलीखास	रवेलीखास	69	भदोही	डोमनपुर	डोमनपुर
			रामदेवपट्टी				चकनान्हू
			अराजी अमानी	70	भदोही	निदूर	निदूर
90	भदोही	परसोत्तमपुर	परसोत्तमपुर				कंतापुर
			शिवदासपुर	71	भदोही	चौरीखास	चौरीखास
			आहोपुर				चौरी दानूपट्टी
			परसोत्तमपुर ज0 बड़ागाव				चौरी निदूरपट्टी
91	भदोही	बरदहां	बरदहां	72	भदोही	बरैला	बरैला
92	भदोही	जगदीशपुर	जगदीशपुर	73	भदोही	चनईपुर	चनईपुर
			गोपालपुर				नरहरपुर
			नरपतपुर	74	भदोही	रवेलीखास	रवेलीखास
			गोड़ाचमरहट्टी				रामदेवपट्टी
93	भदोही	अमवाखुर्द	अमवाखुर्द				अराजी अमानी
94	भदोही	हरिचन्दनपुर	हरिचन्दनपुर	75	भदोही	परसोत्तमपुर	परसोत्तमपुर
			अमवाकला				शिवदासपुर
95	भदोही	पचपटिया	पचपटिया				आहोपुर
			आराजी डिबुई				परसोत्तमपुर ज0 बड़ागाव
			चकबसावन	76	भदोही	बरदहां	बरदहां
			चकमुगलानी	77	भदोही	जगदीशपुर	जगदीशपुर
			चकअमानी				गोपालपुर
96	भदोही	कन्धिया	कन्धिया				नरपतपुर
			गोड़ापर इमाम अली				गोड़ाचमरहट्टी



1	2	3	4	1	2	3	4
97	भदोही	लक्षापुर	लक्षापुर	78	भदोही	अमवाखुर्द	अमवाखुर्द
			जोलहापुर	79	भदोही	हरिचन्दनपुर	हरिचन्दनपुर
98	भदोही	मईहरदोपट्टी	मईहरदोपट्टी				अमवाकला
			राजपुतान ज0 रवेली	80	भदोही	पचपटिया	पचपटिया
			परसोत्तमपुर ज0 बरीगाँव				आराजी डिबुई
			मझिलापुर				चकबसावन
99	भदोही	बहरी	बहरी				चकमुगलानी
			दत्तीपुर ज0 बहरी				चकअमानी
			चन्दनपुर	81	भदोही	कन्धिया	कन्धिया
100	भदोही	भुलईपुर	भुलईपुर				गोडापर इमाम अली
			लोहचन्दा	82	भदोही	लक्षापुर	लक्षापुर
101	भदोही	जददूपुर	जददूपुर				जोलहापुर
			रगधूपुर	83	भदोही	मईहरदोपट्टी	मईहरदोपट्टी
			मनापुर				राजपुतान ज0 रवेली
102	भदोही	अशोगापुर	अशोगापुर				परसोत्तमपुर ज0 बरीगाँव
			धनापुर				मझिलापुर
			झूरी सोनबरसा	84	भदोही	बहरी	बहरी
103	भदोही	दरुनहां	दरुनहां				दत्तीपुर ज0 बहरी
			कपालडीह				चन्दनपुर
			होरिला	85	भदोही	भुलईपुर	भुलईपुर
104	भदोही	चौदीगहना	चौदीगहना				लोहचन्दा
105	भदोही	संवरपुर	संवरपुर	86	भदोही	जददूपुर	जददूपुर
			माधोसिंहपुर				रगधूपुर
106	भदोही	सुरहन	सुरहन				मनापुर
107	भदोही	लठिया	लठिया	87	भदोही	अशोगापुर	अशोगापुर
			कंदुई				धनापुर
108	भदोही	ममहर	ममहर				झूरी सोनबरसा
			भैरापुर	88	भदोही	दरुनहां	दरुनहां
			जीयनपुर				कपालडीह
			मुकुन्दीपुर				होरिला
109	भदोही	दलापुर	दलापुर	89	भदोही	चौदीगहना	चौदीगहना
110	भदोही	गरुलपुर	गरुलपुर	90	भदोही	संवरपुर	संवरपुर
			मानसिंहपुर				माधोसिंहपुर
111	भदोही	सरवतखानी	सरवतखानी	91	भदोही	सुरहन	सुरहन
112	भदोही	रमईपुर	रमईपुर	92	भदोही	लठिया	लठिया

1	2	3	4	1	2	3	4
113	भदोही	बहुतराखुर्द	बहुतराखुर्द				कंदुई
			चैनसिंहपुर	93	भदोही	ममहर	ममहर
			बहुतराकला				भैरापुर
			गोड़पार				जीयनपुर
114	भदोही	बरवाखास	बरवाखास				मुकुन्दीपुर
115	भदोही	टिकैतपुर	टिकैतपुर	94	भदोही	दलापुर	दलापुर
			हड़हीबारी	95	भदोही	गरूलपुर	गरूलपुर
			कछुआबोझ				मानसिंहपुर
116	भदोही	गोविन्दपुर	गोविन्दपुर	96	भदोही	सरवतखानी	सरवतखानी
			अठगोड़वा	97	भदोही	रमईपुर	रमईपुर
117	भदोही	रजईपुर	रजईपुर	98	भदोही	बहुतराखुर्द	बहुतराखुर्द
			साऊपुर				चैनसिंहपुर
118	भदोही	धनवतिया	धनवतिया				बहुतराकला
			गोपालपुर				गोड़पार
119	भदोही	चेतनीपुर	चेतनीपुर	99	भदोही	बरवाखास	बरवाखास
			गोटईया	100	भदोही	टिकैतपुर	टिकैतपुर
120	भदोही	अर्जुनपुर	अर्जुनपुर				हड़हीबारी
			राजपुताना				कछुआबोझ
121	भदोही	गोहिलॉव	गोहिलॉव	101	भदोही	गोविन्दपुर	गोविन्दपुर
			जीयापुर				अठगोड़वा
122	भदोही	जगरनाथपुर	जगरनाथपुर	102	भदोही	रजईपुर	रजईपुर
			रामपुर				साऊपुर
123	भदोही	दुरासी	दुरासी	103	भदोही	धनवतिया	धनवतिया
							गोपालपुर
				104	भदोही	चेतनीपुर	चेतनीपुर
							गोटईया
				105	भदोही	अर्जुनपुर	अर्जुनपुर
							राजपुताना
				106	भदोही	गोहिलॉव	गोहिलॉव
							जीयापुर
				107	भदोही	जगरनाथपुर	जगरनाथपुर
							रामपुर
				108	भदोही	दुरासी	दुरासी

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4/220/2015-4/131(भदोही)/2014, दिनांक 28 जनवरी, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,  
राज कुमार,  
निदेशक,  
पंचायती राज, उ० प्र०।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 711 राजपत्र (हि०)-2021-(1416) 599 प्रतियां (क०/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 62 सा० पंचायतीराज-2021-(1417) 132 प्रतियां (क०/टी०/आफसेट)।

711 RPH (Bhadohi) data 8d Pan raj folder-2020